



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]  
No. 55]

नई दिल्ली शुक्रवार फरवरी 4, 1983/माघ 15, 1904  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 1983/MAGHA 15, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1983

कां०आ० 88(अ)/18कक/आई डी आर ए/83 :—भारत सरकार के  
उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० कां०आ०  
70(अ)/18कक/आई डी आर ए/78 तारीख 6 फरवरी, 1978 (जिसे  
इसमें इसमें पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स कोट्टायम  
टेक्सटाइल्स लिमिटेड, कोट्टायम, केरल नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम  
का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951  
का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन  
5 फरवरी, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है पांच वर्ष  
की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और केरल स्टेट टेक्सटाइल  
कारपोरेशन लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के  
लिए प्रशिक्षित दिया गया था,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है  
कि उक्त औद्योगिक उपक्रम 5 अगस्त, 1983 तक, जिसमें यह तारीख  
भी सम्मिलित है छह मास की और अवधि के लिए केरल स्टेट टेक्स-  
टाइल कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध के अधीन बना रहना चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम,  
1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा  
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश  
6 अगस्त, 1983 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और  
अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[का० सं० 3(17)/77-सी यू सी]  
आर० के० भार्गव  
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY  
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 4th February, 1983

S.O. 88(E)|18AA|IDRA|83.—Whereas by the  
Order of the Government of India in the Ministry  
of Industry (Department of Industrial Develop-  
ment) No. S.O. 70(E)|18AA|IDRA|78 dated  
the 6th February, 1978 (hereinafter referred to  
as the said Order), the management of the whole  
of the Industrial undertaking known as Messrs  
Kottayam Textiles Limited, Kottayam, Kerala,

was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years upto and inclusive of the 5th February, 1983, and the Kerala State Textile Corporation Limited was authorised to take-over the management of the said Industrial undertaking;

And, whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Kerala State

Textile Corporation Limited for a further period of six months upto and inclusive of the 5th August, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 5th August, 1983.

[File No. 3(17)/77-CUS]  
R. K. BHARGAVA, Jt. Secy.